

# उन्नाव में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 20 हजार लीटर शराब और स्पिरिट के साथ दो गिरफ्तार

Publish Date: Mon, 10 Jan 2022 08:21 PM (IST) Author: Abhishek Verma



एसपी दिनेश त्रिपाठी व जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली अंतर्गत लखनऊ-कानपुर हाईवे स्थित नवीन मंडी के पास मोहल्ला इब्राहिम बाग में खाली मकान में नकली शराब फैक्ट्री संचालित होने की सूचना आबकारी टीम को मिली थी।

**उन्नाव, जागरण संवाददाता।** पुलिस और आबकारी विभाग ने रविवार देर रात नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 20 हजार लीटर नकली शराब और स्पिरिट, क्यूआर कोड, शीशी-ढक्कन और कार बरामद हुईं। दो लोगों को पकड़ा गया है। शराब विधानसभा चुनाव में आपूर्ति के लिए बनाए जाने की आशंका है।

एसपी दिनेश त्रिपाठी व जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली अंतर्गत लखनऊ-कानपुर हाईवे स्थित नवीन मंडी के पास मोहल्ला इब्राहिम बाग में खाली मकान में नकली शराब फैक्ट्री संचालित होने की सूचना आबकारी टीम को मिली थी। इसके बाद पुलिस की मदद से रविवार देररात करीब एक बजे छापेमारी की गई। मौके से आनंद जायसवाल निवासी सिंघौली, जिला सीतापुर और अमित जायसवाल निवासी नई सराय हसनगंज को गिरफ्तार किया गया। 20 हजार लीटर शराब और स्पिरिट मिली। इसमें 15 ड्रम में 3000 लीटर व एक गैलन में 40 लीटर स्पिरिट रखी थी। 161 पेट्टी में शराब रखी मिली। शराब बनाने के उपकरण भी मिले। छापेमारी करने वाली टीम में आबकारी निरीक्षक सदर कुलदीप सिंह व आबकारी निरीक्षक पुरवा राजेश प्रताप सिंह, सदर कोतवाली प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडेय, दारोगा हसमत अली, संतोष राय, अबू कासिम आदि शामिल रहे।

## आरोपितों में एक शराब ठेके का सेल्समैन, पुलिस से भी मिलीभगत

आरोपितों में आनंद जायसवाल शेखपुर नरी स्थित देसी शराब दुकान में रजिस्टर्ड सेल्समैन है। वह वहां काम करते हुए नकली शराब बनाने के धंधे से जुड़ा था। इससे उसकी दुकान में भी नकली शराब बिकने की आशंका है। शराब फैक्ट्री कोतवाली पुलिस की मिलीभगत से चलने की बात कही जा रही है। 10 माह से धंधा चल रहा था। शहर स्थित पांच शराब दुकानों के अनुज्ञापी इसमें शामिल हैं। जांच के बाद कई और की गर्दन फंसनी तय है।

Source : <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-fake-liquor-factory-busted-in-unnao-two-arrested-with-20-thousand-liters-of-liquor-and-spirit-22370414.html>